

**B. A. (VOCATIONAL STUDIES)
TOURISM MANAGEMENT
(BAVTM)**

Term-End Examination

June, 2026

**BTMC-138 : MANAGERIAL ACCOUNTING AND
FINANCE IN TOURISM**

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 100

Note : (i) Attempt any **five** questions in about
600 words each.

(ii) All questions carry equal marks.

1. Define accounting. What are the different parties interested in accounting information ?

20

2. What do you understand by accounting concepts ? Briefly explain the accounting

concepts to be observed at the time of preparing final accounts. 20

3. What are accounting standards ? Discuss the procedure for issuing accounting standards in India. 20
4. What is trial balance ? What are the different errors which can be checked by trial balance ? 20
5. What are the merits and demerits of written down value method ? Distinguish it from straight line method. 20
6. Distinguish between the following : 20
 - (a) Gross profit and Net profit
 - (b) Direct expenses and Indirect expenses
 - (c) Trading account and Profit & Loss Account
 - (d) Assets and Liabilities
7. Define computerized accounting system. Distinguish between manual and computerized accounting system. 20

8. What is capital structure ? How is it different from financial structure ? 20
9. What are the different types of working capital ? How is it calculated ? 20
10. How does cash flow analysis help the management in decision making ? 20

BTMC-138

बी. ए. (व्यावसायिक अध्ययन)

पर्यटन प्रबंधन

(बी. ए. वी. टी. एम.)

सत्रांत परीक्षा

जून, 2026

बी.टी.एम.सी.-138 : पर्यटन में प्रबन्धकीय

लेखांकन तथा वित्त

समय : 3 घण्टे

अधिकतम अंक : 100

-
- नोट :** (i) लगभग 600 शब्दों (प्रत्येक) में उत्तर देते हुए, किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
- (ii) सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।
-

1. लेखांकन को परिभाषित कीजिए। लेखांकन सूचना में रुचि लेने वाले विभिन्न पक्ष क्या हैं ? 20

2. लेखांकन अवधारणाओं से आप क्या समझते हैं ? अंतिम लेखा को तैयार करते समय देखे जाने वाली लेखकीय अवधारणाओं की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। 20
3. लेखांकन मानक क्या हैं ? भारत में लेखांकन मानक जारी करने की प्रक्रिया पर चर्चा कीजिए। 20
4. संतुलन परीक्षण क्या है ? वे कौन-सी विभिन्न भूलें हैं जिन्हें संतुलन परीक्षण के द्वारा निरीक्षित किया जा सकता है ? 20
5. लिखित मूल्य विधि के गुण और दोष क्या हैं ? इसे सीधी रेखा विधि से अलग कीजिए। 20
6. निम्नलिखित के बीच अंतर कीजिए : 20
 - (अ) सकल लाभ तथा शुद्ध लाभ
 - (ब) प्रत्यक्ष व्यय तथा अप्रत्यक्ष व्यय
 - (स) ट्रेडिंग खाते तथा लाभ और हानि खाते
 - (द) संपत्ति और देयताएँ

7. कम्प्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली को परिभाषित कीजिए।
मानवकृत तथा कम्प्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली के बीच अंतर
कीजिए। 20
8. पूँजी संरचना क्या है ? यह वित्तीय संरचना से कैसे भिन्न
है ? 20
9. कार्यशील पूँजी के विभिन्न प्रकार क्या हैं ? इसकी गणना
कैसे की जाती है ? 20
10. नकदी प्रवाह विश्लेषण किस प्रकार प्रबंधन को निर्णय लेने में
सहायता करता है ? 20

x x x x x